

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/रा0ब0सहा0निधि/सेल-2/2016/  
प्रति,

भोपाल,दिनांक / /2016

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं अधिकारी, मध्यप्रदेश।

**विषय:-** राज्य शासन से मान्यता प्राप्त कोलम्बिया हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत जांच/उपचार करने की स्वीकृति के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-4-56/2015/55-2 दिनांक 30.09.2015 द्वारा कोलम्बिया हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु मान्यता दी गई है। जांच/उपचार हेतु मान्यता प्रदान की गई है।

जिन चिकित्सालयों को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के जांच/उपचार हेतु मान्यता प्रदान की गई है, उन्ही चिकित्सालयों को राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत मान्यता प्रदान की जाती है।

अतः कोलम्बिया हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के नियम क्रमांक 02 के खण्ड "घ अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत सूची दिनांक 01.02.2016 द्वारा हृदय रोग के उपचार हेतु कार्डियालाजी (एंजियोग्राफी/एंजियोप्लाटी एण्ड अदर कार्डियोलोजिक इन्टरवेंशन) लाईक बीएनवी, पीपीआई, कार्डियोथेरोसिक सर्जरी, मान्यता प्रदान की गई थी। उक्त संस्था को मल्टीडिसीप्लीनरी ट्रीटमेंट (किडनी ट्रान्सप्लान्ट फॉर कॉनिक रीनल डिसिसेज, डायलेसिस, प्रसवोत्तर जटिलतायें, कॉर्डियो वेसकुलर सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, बर्न एण्ड पोस्ट बर्न कन्डक्टर, कंजेनेटल मेलफार्मेशन डिसिस के अन्तर्गत सभी तरह के कंजेनेटल कार्डियक सर्जरी) के उपचार करने हेतु भी दिनांक 31.03.2017 तक स्वीकृति दी जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि/मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृति के दौरान निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे :-

1. पात्र हितग्राहियों को ही चिकित्सा राशि स्वीकृत की जावे एवं योजनान्तर्गत सभी निर्धारित नियमों/प्रावधानों का पालन किया जावे।
2. चिकित्सा संस्था का उपचार प्राक्कलन निर्धारित बीमारी के पैकेज की सीमा का हो। यदि प्राक्कलन पैकेज से अधिक हो तो संबंधित संस्था से उसका स्पष्टीकरण लिया जावे। पैकेज से अधिक राशि की मांग करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्ताव भेजे जावे।
3. प्रत्येक चिकित्सा सहायता राशि की स्वीकृति आदेश में यह उल्लेख किया जावे कि रोगी के उपचार उपरांत चिकित्सा संस्था को सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, शेष राशि एवं रोगी का डिस्चार्ज टिकिट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 15 दिवस में अनिवार्य रूप से भेजे तथा जो रोगी 3 माह तक उपचार कराने नहीं आता है, उसकी चौथे माह में राशि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वापस भेजी जावे।

संलग्न:-मान्यता पत्र की छायाप्रति

संचालक(रा.बी.सहा.नि.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.

भोपाल,दिनांक 24/07/2016

पू.क्रमांक 4/रा0ब0सहा0निधि/सेल-2/2016/370  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त, संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
4. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, कोलम्बिया हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर, (महाराष्ट्र)।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संचालक(रा.बी.सहा.नि.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.